



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2007 (पौष 1, 1929)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2007 (PAUSA 1, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. आरएस/3(vi)/2007/128(कार्मिक)--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में उप निदेशक (पी एस एस) श्रीमती सरोज बाला रिख को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेशों तक 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में इस सचिवालय में संयुक्त निदेशक (पी एस एस) के ग्रेड में नियमित आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

सी. बी. राय, संयुक्त सचिव

तत्पश्चात उनकी सेवाएं मुख्य सचिव, पश्चिमी बंगाल सरकार, कोलकाता को सौंपी जाती हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 12 सितम्बर 2007

सं. पीएफ. 47-आर(3)/जीएन-5957/एएन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,750--16,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत उप सचिव ग्रेड-I श्री एस. बी. अरोड़ा को 15,100-400-18,300/- रुपये के वेतनमान में निदेशक के ग्रेड में 12 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110 001, दिनांक 29 अगस्त 2007

सं. एफ 15/25/2005/जीएन-5955/एएन-I--श्री विवेक कुमार, आईएएस (प.ब. : 90) जो वर्तमान में प्रतिनियुक्ति के आधार पर माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के सचिव के रूप में कार्यरत हैं, को 29 अगस्त, 2007 (अपराह्न) से इस सचिवालय में उनकी सेवाओं से मुक्त किया जाता है और

सं. पीएफ. 116-आर(3)/जीएन-5958/एएन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 10,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित अवर सचिवों को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप

सचिव ग्रेड-II के ग्रेड में 12 सितम्बर, 2007 से नीचे दर्शाए गए क्रम में अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती समता केमवाल
2. श्री कुशला सरकार

अभिजीत कुमार, निदेशक

दिनांक 19 सितम्बर 2007

सं. पीएफ. 74-आर(3)/जीएन-5959/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत उप सचिव ग्रेड-II श्री पी. सी. त्रिपाठी को 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सचिव ग्रेड-I के ग्रेड में 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 161-आर(3)/जीएन-5960/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकाल अधिकारियों, जिन्हें क्रमशः 13 जून, 2007 के अधिसूचना सं. जीएन-5901 और 24 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं. जीएन-5941 द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था, को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में अवर सचिव के ग्रेड में नियमित आधार पर 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक नीचे दर्शाए गए क्रम में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्रीमती जूबी अमर
2. श्री नवीन कुमार झा
3. श्री तिर्थकर दास

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 166-आर(3)/जीएन-5961/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत निम्नलिखित कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकाल अधिकारियों को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के ग्रेड में 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

1. श्री एल. वी. रमना
2. श्री राजीव मणी
3. मो. आफताब आलम

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 1358-आर(3)/जीएन-5962/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 8,000--13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत सहायक संपादक, श्री प्रणव कुमार को 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में संपादक के ग्रेड में तदर्थ आधार पर 19 सितम्बर, 2007 से, अगले आदेशों तक, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 1409-आर(3)/जीएन-5963/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 7,450--11,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत अनुवादक, श्री ब्रजेश कुमार को 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में सहायक संपादक के ग्रेड में स्थानापन्न रूप में 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. वह 19 सितम्बर, 2007 से 18 सितम्बर, 2009 तक दो वर्ष की अवधि के लिए सहायक संपादक के ग्रेड में परीवीक्षाधीन रहेंगे।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 1201-आर(3)/जीएन-5964/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000--16,500/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत संयुक्त निदेशक (मुद्रण) ग्रेड-II, श्रीमती ऐषा बोस को 12,750-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (मुद्रण) ग्रेड-I के ग्रेड में 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. पीएफ. 1203-आर(3)/जीएन-5965/एन-I/2007--अध्यक्ष महोदय, 12,000--15,200/- रुपये के वेतनमान में कार्यरत सहायक निदेशक (मुद्रण और प्रकाशन), श्री रविन्दर कुमार को 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में संयुक्त निदेशक (मुद्रण) ग्रेड-II के ग्रेड में 19 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अभिजीत कुमार, निदेशक

सं. एफ 15/25/2005/जीएन-5966/एन-I--अध्यक्ष महोदय श्री इंदीवर पाण्डेय, आईएएस (प.ब. : 88) को 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में लोक सभा के माननीय अध्यक्ष (श्री सोमनाथ चटर्जी) के सचिव के रूप में प्रतिनियुक्ति आधार पर 10 सितम्बर, 2007 से अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री इंदीवर पाण्डेय की लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निजी स्टाफ में नियुक्ति सेवा अवधि के आधार पर और लोक सभा के वर्तमान माननीय अध्यक्ष के प्रसाद पर्यन्त अथवा उनके कार्यकाल के साथ सहविस्तारी होगी।

3. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 6 सितम्बर, 2007 के आदेश सं. 14017/32/2007/आईएस-II के अनुसार, श्री इंदीवर पाण्डेय की लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के सचिव के रूप में नियुक्ति आई ए एस (कैडर) नियम, 1954, यथासंशोधित, के नियम 6(2)(ii) के अंतर्गत की गई है।

अभिजीत कुमार, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. ए-11013/2/2007-प्रशा. III--राष्ट्रपति जी, श्री पी. शंकर, सीएसएस के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (आमेलित) (निजी सचिव

के रूप में अभिनामित) योजना आयोग को दिनांक 1 दिसम्बर, 2007 को (पूर्वाह) से सह-सत्रावसान प्रतिनियुक्ति के आधार पर 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में सदस्य (श्री बी. के. चतुर्वेदी) के निजी स्टाफ में सदस्य योजना आयोग की इच्छा के अनुरूप अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

दि. कु. मुस्ताफी, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2007

सं. ए-19015/2/95-प्रशा.-V--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 27 सितम्बर, 2007 के आदेश सं. 05/17/2007-सीएस.-I (डेस्क) के अनुसरण में श्री एन. के. अरोड़ा, अनुभाग अधिकारी, योजना आयोग की सेवाएं 29 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह से पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) के पद पर नियुक्ति के फलस्वरूप गृह मंत्रालय के अधीन की जाती है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. एफ.6(1544)/92-प्रशासन-1--आई.ई.एस. के एस.ए.जी. में पदोन्नति तथा निगम कार्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के पद पर उनकी तैनाती के परिणामस्वरूप, योजना आयोग में निदेशक श्री एन. डी. जॉर्ज को उस मंत्रालय में कार्यभार संभालने हेतु दिनांक 26 नवम्बर, 2007 (अपराह) से योजना आयोग से कार्यमुक्त किया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/7/2006-प्रशा.-I--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना अंकन), श्री अमिताभा रे को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सलाहकार (डाटा बैंक) के पद पर नियमित पदोन्नति आधार पर दिनांक 15 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए-12025/8/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (प्रकृतिक विज्ञान), डॉ. ए. ए. सोनकुसारे को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (वैज्ञानिक अनुसंधान) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह से एक वर्ष की अवधि तक अथवा उक्त पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी सबसे पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति डॉ. सोनकुसारे को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरियता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए-12025/8/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (पेट्रोलियम), श्री राजनाथ राम को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (परियोजना अंकन) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह से एक वर्ष की अवधि तक अथवा उक्त पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी सबसे पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति श्री राजनाथ राम को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरियता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

शुद्धिपत्र

सं. एफ.6(1319)/87-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग (वित्त मंत्रालय) में मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर उनकी नियुक्ति हो जाने पर डॉ. अरविन्द विरमानी को योजना आयोग में प्रधान सलाहकार के पद से कार्यमुक्त करते हुए योजना आयोग द्वारा जारी दिनांक 18 जुलाई, 2007 का समसंख्यक अधिसूचना का संदर्भ लें। डॉ. विरमानी द्वारा पदभार छोड़ने की प्रभावी तिथि को दिनांक 16.07.2007 (अपराह) की जगह दिनांक 16.07.2007 (पूर्वाह) पढ़ा जाए।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 6 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/37/2008-प्रशा.-I--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (इंजीनियरी), श्री सुधीर कुमार को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सलाहकार (इंजीनियरी) के पद पर नियमित पदोन्नति आधार पर दिनांक 30 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/8/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (परियोजना अंकन), श्री ए. मनोहर

को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (परियोजना अंकन) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से छः माह की अवधि तक अथवा उक्त पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी सबसे पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति श्री मनोहर को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए-12025/8/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (भूविज्ञान), तथा तदर्थ उप सलाहकार (खनिज), श्री एच. पी. कोन्नौजिया को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (ऊर्जा नीति) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 29 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि तक अथवा उक्त पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी सबसे पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति श्री कन्नौजिया को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए-12025/8/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, योजना आयोग में नियमित वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (विज्ञान शिक्षा), सुश्री रेणु सोबती को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रु. के वेतनमान में उप सलाहकार (शिक्षा) के पद पर तदर्थ आधार पर दिनांक 5 दिसम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि तक अथवा उक्त पद के नियमित रूप से भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इन में से जो भी सबसे पहले हों, नियुक्त करते हैं।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त तदर्थ नियुक्ति सुश्री रेणु सोबती को उप सलाहकार के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती और न ही उप सलाहकार के पद पर उनकी इस तदर्थ नियुक्ति की अवधि को उप सलाहकार ग्रेड में वरीयता के लिए अथवा उच्च स्तर पर प्रोन्नति के लिए गिना जाएगा।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/1/2005-प्रशा.-I--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण में भूगर्भ वैज्ञानिक (वरिष्ठ), श्री आर. बी. त्यागी को योजना आयोग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप सलाहकार (खनिज) के पद पर प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 4 दिसम्बर, 2007 के अपराह्न से चार वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

एस केशवा अय्यर, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. 181/7/1/2007--राष्ट्रपति, श्रीमती कला शंकरन को 01 दिसम्बर, 2007 से, आगामी आदेशों तक के लिए, भारत निर्वाचन आयोग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में प्रधान निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

ऋत्विक् पाण्डेय, सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 19 नवम्बर 2007

सं. के-13018/1/2005-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री कार्तिकेय मधुसूदन ठाकर, (ii) श्री झहिरुद्दीन खैरुद्दीन सैयद, (iii) श्री राजेश हरिवदन शुक्ल और (iv) श्री जनकराय चंदुभाई उपाध्याय को उसी वरीयता क्रम में, इस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए गुजरात उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 20 नवम्बर 2007

सं. के-13023/3/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी, (ii) श्री बृज मोहन गुप्ता और (iii) श्री अनिल प्रकाश श्रीवास्तव को दिनांक 25.11.2007 से एक वर्ष की अवधि के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13020/1/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर के संविधान की धारा 100-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री महोमद याकुब मीर को उस तारीख, जब वे अपना

कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए जम्मू एवं कश्मीर उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. के-13027/4/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (i) श्री राकेश कुमार गर्ग, (ii) श्री राकेश कुमार जैन, (iii) श्री कंवलजीत सिंह आहलुवालिया, (iv) श्री जसवन्त सिंह और (v) श्रीमती दया चौधरी को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13024/4/2007-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री ए. सी. आरुमुग पेरुमाल आदित्यन, (ii) न्यायविद् श्री पी. मुरगेशन, (iii) न्यायविद् श्री सबापति तमिलवाणन और (iv) न्यायविद् श्री मुद्रासि जेयपाल को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से मद्रास उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. के-13022/1/2007-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री पाडूर नटुविलिडम रवीन्द्रन, को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए केरल उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 नवम्बर 2007

सं. के-13026/2/2007-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश (i) न्यायविद् श्री अजय कुमार त्रिपाठी, और (ii) न्यायविद् श्री धरणीधर झा को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राजीव अग्रवाल, अपर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. ए-32013/05/2007-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री पी. पी. सिंह, स्थाई अनुभाग अधिकारी और तदर्थ आधार पर

कार्यरत अवर सचिव को के.स.से. के गृह मंत्रालय संवर्ग में अवर सचिव ग्रेड-I में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं। उनकी वरिष्ठता सं. चयनित वर्ष 2002 में के.स.से.के ग्रेड-I के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2006-सी.एस.-I (डेस्क) के तहत 59 होगी और के.स.से. के ग्रेड-I में नियुक्ति की तिथि 01.07.2002 मानी जाएगी।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 10 दिसम्बर 2007

सं. 20/जी/2935-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, श्री सदा कांत, आई.ए.एस. (यू.पी. : 83) को गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में दिनांक 26 नवम्बर, 2007 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों अथवा अगले आदेशों के होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

ओ. पी. शर्मा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 14016/28/2005-यू.टी.एस.-II--राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमण एवं दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली पुलिस सेवा (दानिप्स) के प्रवेश ग्रेड अधिकारी श्री जीवन सिंह गिल का 21 अगस्त, 2007 को निधन हो गया।

जे. के. सिंह, डेस्क अधिकारी

नई दिल्ली-1, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 14031/1/2007-यू.टी.एस.--अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1971 के बेच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी श्री आर. नारायणस्वामी, अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 30 नवम्बर, 2007 के अपराह्न में सेवानिवृत्त हो गए हैं।

वी. के. गुप्ता, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. 14012/05/2002-अ.भा.से.-III--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 1999 बैच के तमिलनाडु राज्य के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री देव राज देव को दिनांक 20.9.2001 से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. 14013/06/2007-ए.आई.एस.-III--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, वर्ष 2001 बैच के मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग से सेवा शुरू करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा के सदस्य श्री एन. एस. भटनागर को दिनांक 22.11.2007 से स्थायी करते हैं।

2. श्री एन. एस. भटनागर का स्थाईकरण माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर बैच के समक्ष श्री गोपाल सिंह नेताम द्वारा दायर ओ.ए. सं. 640/2006 तथा श्री राम गोपाल पाण्डेय द्वारा दायर ओ.ए. सं. 685/2006 के अन्तिम नतीजे के अध्वधीन होगी।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

कार्यालय : उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. डी. III/460/सीएफ-30/07--भारत की राष्ट्रपति, नई दिल्ली में वनातु गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री विक्रम कपूर की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती हैं।

श्री विक्रम कपूर के कौंसली क्षेत्राधिकार में संपूर्ण भारत है जिसका कौंसली केंद्र नई दिल्ली में होगा।

डी. के. शर्मा, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. ए-22015/3/2007-प्रशा. I--राष्ट्रपति, वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकीय महानिदेशालय में उप निदेशक श्री सैकत सरकार (आई ई एस : 95), को भारतीय आर्थिक सेवा संवर्ग अन्तरित पद पर वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में 26 नवम्बर, 2007 की पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक संयुक्त निदेशक के रूप में नियुक्त करती हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 नवम्बर 2007

सं. 1(25)/2004-विस्फोटक--राष्ट्रपति, श्री पी. बी. येदला, विस्फोटक नियंत्रक को दिनांक 9 अप्रैल, 1996 से पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, नागपुर में 12,000-375-16,500/- रुपये के वेतनमान में उप मुख्य विस्फोटक नियंत्रक नियुक्त करते हैं।

जय सिंह, अवर सचिव

दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. 1(37)/2004-विस्फोटक--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से पेट्रोलियम और विस्फोटक

सुरक्षा संगठन, नागपुर में रुपये 8,000-275-13,500/- के वेतनमान में उप-विस्फोटक नियंत्रक नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	कार्यग्रहण तिथि
1.	श्री अशोक कुमार दलेला	14.5.2007 (पूर्वाह्न)
2.	श्री जर्नादन कुमार	14.5.2007 (पूर्वाह्न)
3.	डॉ. अनुज कुमार	31.5.2007 (पूर्वाह्न)
4.	डॉ. करुणामय पांडे	15.5.2007 (पूर्वाह्न)
5.	डॉ. विवेक कुमार	14.6.2007 (पूर्वाह्न)
6.	श्री गजेन्द्र कुमार पांडे	14.6.2007 (पूर्वाह्न)
7.	डॉ. संजय कुमार सिंह	29.6.2007 (पूर्वाह्न)
8.	श्री हृदयेश कुमार शर्मा	14.5.2007 (पूर्वाह्न)
9.	श्री शिवचंद्र दयाकांत मिश्रा	28.5.2007 (पूर्वाह्न)
10.	श्री श्रीनिवास राव केता	10.5.2007 (पूर्वाह्न)
11.	डॉ. दशरथ लक्ष्मण कांबले	28.5.2007 (पूर्वाह्न)

जय सिंह, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. ए-32013/2/2006-स्था. I--राष्ट्रपति, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित उप सचिवों को उनके नामों के सामने उल्लिखित तिथियों से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं:--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
चयन सूची 2001		
1.	श्री सत पाल	01.07.2001
चयन सूची 2002		
2.	श्री राज कुमार सागर	01.07.2002
3.	श्री बाबू राम	01.07.2002

कुलदीप कुमार, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. ए-32011/01/2001-प्रशा. I(ए)--इस विभाग की दिनांक 11 अप्रैल, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.), श्री धीरेन्द्र तिवारी, कनिष्ठ तकनीकी सहायक की 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक (तकनीकी) के रूप में विज्ञान और प्रौद्योगिकी

विभाग में 05.10.2007 से 04.04.2008 तक छह महीने की अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्ति की अवधि बढ़ाते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उसी ग्रेड में अनिश्चित काल तक जारी रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अथवा कनिष्ठ विश्लेषक के ग्रेड में वरिष्ठता के दावे का अधिकार प्रदान नहीं करती।

एस. पी. कतनौरिया, अवर सचिव

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग)

नई दिल्ली-110016, दिनांक 4 दिसम्बर 2007

सं. ए-32019/04/2007-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 1 नवम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सी एस आई(डी) के तहत वर्ष 2001 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री नानक चन्द का नाम शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में, 1 जुलाई, 2001 से नियमित आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

सं. ए-32019/04/2007-स्थापना-I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा उनके दिनांक 7 नवम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सी एस आई(डी) के तहत वर्ष 2002 की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड की चयन सूची में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री महेन्द्र शर्मा और श्री रामकुमार के नाम शामिल होने के फलस्वरूप राष्ट्रपति उन्हें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग में, 1 जुलाई, 2002 से नियमित आधार पर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस. के. कालड़ा, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 नवम्बर 2007

शुद्धिपत्र

सं. ए-12012/14/2005-पी.II(.)--दिनांक 7 नवम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए रु. 12,000-375-16,500/- के स्थान पर 14,300-400-18,300/- रु. का वेतनमान पढ़ा जाए।

प्रेमा मोहन, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/14/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. राम स्वरूप मतोरिया को केन्द्रीय स्वास्थ्य

सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में 11.07.2007 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. राम स्वरूप मतोरिया केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किए जाते हैं। डा. राम स्वरूप मतोरिया दो वर्षों की परिवीक्षा पर रहेंगे।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/17/2006-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. संध्या जैन को 30.05.2007 के अपराह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. संध्या जैन को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. संध्या जैन दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. ए-12025/43/2004-सीएचएस-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डा. अखिलेश कुमार को 27.06.2005 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8000-275-13,500/- रुपए के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. अखिलेश कुमार को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, कानपुर के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डा. अखिलेश कुमार दो वर्षों की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

(श्रीमती) माया प्रकाश, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. ए-38013/3/2007-प्रशासन-I--अधिवर्षिता की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री पी. के. बनाती, अनुभाग अधिकारी स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, दिनांक 31.10.2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

अरुण चौधरी, उप निदेशक प्रशासन (ए.सी.)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. 38012/14/2007/स्थापना-I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में उप सचिव, श्री एस. आर. गोयल अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

सं. 18012/13/2007/स्थापना-I--कृषि एवं सहकारिता विभाग में प्रधान निजी सचिव, श्री के. एस. सचदेवा अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होंगे।

पी. विजय कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

सं. 48026/5/2007-विपणन-I--राष्ट्रपति, श्री ए. के. सिंह को दिनांक 02.08.2000 (पूर्वाह्न) से विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, फरीदाबाद, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय में मूल क्षमता में रु. 8,000--13,500/- के वेतनमान में वरिष्ठ विपणन अधिकारी (गुप-II) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

राधे श्याम, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 नवम्बर 2007

सं. 4-35/2006-प्रशा.--केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के नियमित अधिकारी श्री ओ. पी. सरोहे का नाम वर्ष 2002 की चयन सूची में शामिल किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति ने उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के उप सचिव के चयन ग्रेड में नियमित आधार पर दिनांक 01.07.2002 से नियुक्त किया है।

यह अधिसूचना कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 7 नवम्बर, 2007 के कार्यालय ज्ञापन सं. 4/1/2007-सी.एस.-1(डी) के अनुसरण में जारी की जा रही है।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

दिनांक 19 नवम्बर 2007

सं. एफ. 4-25/2007-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 30.10.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/4/2007-सी.एस.-I के अनुसरण में राष्ट्रपति ने वर्ष 1997 की चयन सूची के ग्रेड-I की नियमित अधिकारी सुश्री अंजु भल्ला (केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर सचिव) को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में चयन ग्रेड (केन्द्रीय सचिवालय सेवा की उप सचिव) में पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 7.11.2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया है।

शकुंतला जैन, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 नवम्बर 2007

सं. 11019/1(ii)/2005-स्था. (जनजातीय कार्य)--सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 05.10.2007 के का. ज्ञा. सं. 12016/6/एसएजी(तदर्थ)/2006-I एसएस (भाग) के अनुसरण में,

राष्ट्रपति श्री एच. के. शर्मा को दिनांक 29.10.2007 के पूर्वाह्न से जनजातीय कार्य मंत्रालय में 18,400-500-22,400/- रुपए के वेतनमान में उप महानिदेशक नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 11019/1(i)/2005-स्था. (जनजातीय कार्य)--सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 05.10.2007 के कार्यालय आदेश सं. 12016/6/एस.ए.जी.(तदर्थ)/2006-आई.एस.एस. (भाग) के अनुसरण में, राष्ट्रपति जनजातीय कार्य मंत्रालय के श्री ए. के. माथु, उप महानिदेशक को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, चंडीगढ़ में अपना नया कार्यभार संभालने हेतु उन्हें 26.10.2007 के अपराह्न के कार्यमुक्त करते हैं।

2. श्री ए. के. माथुर को एतद्वारा दिनांक 29.10.2007 से 30.11.2007 तक 33 दिनों का अर्जित अवकाश (जिसमें अनुमति से प्रारंभ में 27 तथा 28 अक्टूबर, 2007 तथा अंत में 1 तथा 2 दिसम्बर, 2007 को शनिवार तथा रविवार की छुट्टी जोड़ दी गई है) स्वीकृत किया जाता है। उपरोक्त अवकाश की अवधि के वेतन श्री माथुर को इस मंत्रालय द्वारा दिया जाएगा। उक्त अवकाश की अवधि की समाप्ति तथा अनुमत्य कार्य-ग्रहण अवधि प्राप्त करने पर श्री माथुर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, क्षेत्रीय प्रचालन प्रभाग, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, चंडीगढ़ में अपना नया कार्यभार संभालेंगे।

ए. के. साहा, अवर सचिव

सं. 11013/2/2001-स्था. (भाग)--राष्ट्रपति, श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा (आईएफएस) (ए.एम. : 91) को 14.11.2007 के पूर्वाह्न से 06.03.2012 तक अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, जनजातीय कार्य मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. 19011/12/2005-स्था.--जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी, श्री लक्ष्मण दास अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होते हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 3 नवम्बर 2007

सं. 11036/9/2006-पीसी एंड वी (ii)--इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11036/9/2006-पीसी एंड वी दिनांक 13.11.2007 के अधिक्रमण में तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) की शर्तों के अनुसार जनजातीय कार्य मंत्रालय में निम्नलिखित अधिकारियों को एतद्वारा उनके नामों के सामने लिखे संबंधित प्रभागों

द्वारा किए जा रहे विशिष्ट मामलों के संबंध में जनजातीय कार्य मंत्रालय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है:--

क्र. अधिकारी का नाम सं.	पद नाम व पता	दूरभाष सं.	प्रभाग/अनुभाग
श्री/श्रीमती			
1. डॉ. बच्चतर सिंह	संयुक्त सचिव कमरा नं. 741 "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23073489	एसजी/प्रशासन सामान्य/पीसी एंड वी/आर/एंड एम
2. रूचिरा पंत	संयुक्त सचिव कमरा नं. 722, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23383622	एनजीओ/शिक्षा/सी एंड एलएम
3. एच. के. शर्मा	उप महानिदेशक (सांख्यिकी), कमरा नं. 241, अगस्त क्रांति भवन, आर. के. पुरम, नई दिल्ली	26182094	सांख्यिकी/सी पी एंड आर
4. बी. सी. मुडा	सलाहकार (आर्थिक) कमरा नं. 242, अगस्त क्रांति भवन, आर.के. पुरम, नई दिल्ली	26182429	एमईआर
5. एस. के. राय	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कमरा सं 118, सी विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली	23382696	आंतरिक वित्त प्रभाग

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

सं. 11036/9/2006-पी सी एंड वी (ii)--इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 11036/09/2005-पीसी एंड वी (1) दिनांक 13.11.2007 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) की शर्तों के अनुसार इस मंत्रालय के राज्य अनुदान प्रभाग के संबंध में श्री ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक को सुश्री जूथिका पाटणकर के स्थान पर एवं उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट विषय-वस्तु के संबंध में केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

2. श्री ए. के. श्रीवास्तव के कार्यालय का पता एवं दूरभाष:
कमरा सं. 212, डी विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110115
दूरभाष सं. 23387444

3. उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 2 के सामने उल्लिखित सुश्री जूथिका पाटणकर के नाम को हटया गया समझा जाए।

3--372 GI/2007

प्रदीप कुमार, अवर सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं. ई (ओ) III-2007/आरएन/38--कोकण रेल कार्पोरेशन निगम में स्थायी समाहन होने के परिणामस्वरूप, श्री ए. ए. भट्ट, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/भा.रे.सि.इ.से. ने 13.11.2007 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

मैथ्यू जॉन, सचिव, रेलवे बोर्ड

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 दिसम्बर 2007

सं. ए-38013/2/2007-स्था.-I--पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री एस. के. खुराना अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करके दिनांक 30.11.2007 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2007

सं. ए-32014/1/2007-ई-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायकों (सीएसएस) को पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग में दिनांक 31.10.2007 (पूर्वाह) से दिनांक 31.12.2007 तक 6,500-200-10,500 रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) के पद पर नियुक्त करते हैं:--

1. श्री जगबीर सिंह राणा
2. श्रीमती प्रभा शर्मा
3. श्री प्रकाश चन्द्र
4. श्री पी.आर. निगाह

2. यह तदर्थ नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए अनुभाग अधिकारियों की चयन सूची में शामिल होने अथवा सीएसएस के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता संबंधी दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस तदर्थ नियुक्ति को बगैर कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

पूर्णमा राजेन्द्रन, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 दिसम्बर 2007

सं. 39/2007 मिसिल सं. ए-32013/2/2007-प्रशा.-1--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर, राष्ट्रपति, केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरी

(समूह-क) के निम्नलिखित अधिकारियों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में उसी सेवा के ज्येष्ठ काल वेतनमान (उप निदेशक/कार्यकारी अभियन्ता) में रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में, उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से अगले आदेश जारी होने तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	ए. के. साहा	19.09.2007 (पूर्वाह)
2.	दीपक कुमार	21.09.2007 (पूर्वाह)
3.	दलीप चन्द	19.09.2007 (पूर्वाह)
4.	पी. के. मित्तल	19.09.2007 (पूर्वाह)
5.	टी. वेंकटेश्वरलू	25.09.2007 (पूर्वाह)
6.	राजीव कुमार	19.09.2007 (पूर्वाह)
7.	सौमित्रा मजूमदार	19.09.2007 (पूर्वाह)
8.	नवदीप दत्ता	19.09.2007 (पूर्वाह)
9.	वाई. के. स्वर्णकार	19.09.2007 (पूर्वाह)
10.	विजय धवन	19.09.2007 (पूर्वाह)
11.	दीदार सिंह	19.09.2007 (पूर्वाह)
12.	रवि प्रकाश प्रधान	19.09.2007 (पूर्वाह)
13.	एच. सी. अग्रवाल	19.09.2007 (पूर्वाह)
14.	श्रीमती शारदा प्रसाद	19.09.2007 (पूर्वाह)
15.	राजेश कुमार	19.09.2007 (पूर्वाह)
16.	विक्रम सिंह	28.09.2007 (अपराह)
17.	जगदीश राठौड़ खीमा	28.09.2007 (पूर्वाह)
18.	श्रीमती अनीता गहलोत	19.09.2007 (पूर्वाह)

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2007

सं. 40/2007 मि. सं. ए-38012/1/2007-प्रशा.-1 अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी, भारत सरकार की सेवा से 31 अक्टूबर 2007 के अपराह से सेवा निवृत्त हो गए हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पद का नाम
1.	श्री एस.सी. मारवाह	उप निदेशक
2.	श्री विजय पाल	उप निदेशक

आर.सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सं. 41/2007 मि. सं. ए-38012/1/2007-प्रशा.-1--राष्ट्रपति, श्री राहुल राज को कनिष्ठ काल वेतनमान (सहायक निदेशक ग्रेड एक/सहायक कार्यकारी अभियन्ता) में केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग (समूह-क) सेवा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में 26 नवम्बर 2007 के पूर्वाह से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

2. श्री राहुल राज दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 06 दिसम्बर 2007

सं. 446/2007/फा. सं. 6/2/2007-प्रशा. II-- राष्ट्रपति, श्री यू. के. वर्मा, भा. प्र. से (म. प्र.: 76) को दिनांक 06.12.2007 की पूर्वाह से सूचना और प्रसारण मंत्रालय में 22,400-525-24,500/- रुपये के वेतनमान में अपर सचिव के रूप में अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

राम फल, अवर सचिव

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2007

सं.-21/5/2000-प्र. II (पार्ट)--महानिदेशक, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय में निम्नलिखित सहायक लेखा अधिकारियों को लेखा अधिकारियों के पद पर नियमित आधार पर रु. 7,400-225-11,500 के वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से नियुक्त करते हैं:-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	लेखा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि
1.	श्री अशोक सचदेवा	21.11.2007
2.	श्री एस. के. गुप्ता	21.11.2007

पी. एम. जॉर्ज, उप-निदेशक

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-1100011, दिनांक 26 नवम्बर 2007

सं. ए-22016/1/2007-प्रशासन-1.--राष्ट्रपति, सुश्री शारदा मेशराम को दिनांक 16.11.2007 (पूर्वा.) से अगले आदेशों तक शहरी विकास मंत्रालय में निदेशक नियुक्त करते हैं।

यू. विश्वनाथम, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 10th December 2007

No.RS/3(vi)/2007/128-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Smt. Saroj Bala Rikh, Deputy Director (PSS) in the Rajya Sabha Secretariat to officiate on a regular basis in the grade of Joint Director (PSS) in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- in that Secretariat, with immediate effect, until further orders.

C. B. RAI, Jt. Director

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 29th August 2007

No.F.15/25/2005/GN-5955/AN-I—Shri Vivek Kumar, IAS (WB-90) who is presently working as Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha on deputation basis is relieved of his duties in this Secretariat with effect from the afternoon of 29th August, 2007 and thereafter his services are placed at the disposal of the Chief Secretary, Government of West Bengal, Kolkata.

ABHIJIT KUMAR, Director

The 12th September 2007

No. PF.47-R(3)/GN-5957/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri S. B. Arora, Deputy Secretary Grade-I in the scale of pay of Rs.12,750—16,500/- to the grade of Director in the scale of pay of Rs. 15,100-400-18,300/- with effect from 12th September, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.116-R(3)/GM-5958/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Under Secretaries in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the order as shown below, with effect from 12th September, 2007 until further orders:—

1. Smt. Manita Kernwal
2. Shri Kusal Sarkar

ABHIJIT KUMAR, Director

The 19th September 2007

No. PF.74-R(3)/GN-5959/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri P. C. Tripathy, Deputy Secretary Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000—16,500/- to the grade of Deputy Secretary Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from 19th September, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.161-R(3)/GN-5960/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- who were appointed as Under Secretaries on adhoc basis vide Notification Nos. GN-5901 dated the 13th June, 2007 and GN-5941 dated the 24th August, 2007 respectively, to the grade of Under Secretary in the Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on regular basis, in the order as shown below, with effect from 19th September, 2007 until further orders:—

1. Smt. Juby Amar
2. Shri Nabin Kumar Jha
3. Shri Tirthankar Das

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.166-R(3)/GN-5961/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint the following Executive/Legislative/Committee/Protocol Officers in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Under Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis with effect from 19th September, 2007 until further orders:—

1. Shri L. V. Ramana
2. Shri Rajiv Mani
3. Md. Aftab Alam

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1358-R(3)/GN-5962/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Pranav Kumar, Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000—13,500/- to the grade of Editor in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad-hoc basis with effect from 19th September, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

No. PF.1409-R(3)/GN-5963/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Brajesh Kumar, Translator in the scale of pay of Rs. 7,450—11,500/- to the grade of Assistant Editor in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in an officiating capacity with effect from 19th September, 2007 until further orders.

2. He will be on probation in the grade of Assistant Editor for a period of two years with effect from 19th September, 2007 upto 18th September, 2009.

ABHIJIT KUMAR, Director

Np. PF.1201-R(3)/GN-5964/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Smt. Esha Bose, Joint Director (Printing) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- to the grade of Joint Director (Printing) Grade-I in the scale of pay of Rs. 12,750-375-16,500/- with effect from 19th September, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

Np. PF.1203-R(3)/GN-5965/AN-I/2007—The Speaker is pleased to appoint Shri Ravinder Kumar, Assistant Director (Printing & Publications) in the scale of pay of Rs. 10,000—15,200/- to the grade of Joint Director (Printing) Grade-II in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 19th September, 2007 until further orders.

ABHIJIT KUMAR, Director

Np. F.15/25/2005/GN-5966/AN-I—The Speaker is pleased to appoint Shri Indevan Pandey, IAS(WB:88) as Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha (Shri Somnath Chatterjee) in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- on deputation basis with effect from 10th September, 2007 until further orders.

2. The appointment of Shri Indevan Pandey on the personal staff of Hon'ble Speaker, Lok Sabha will be on tenure basis and during the pleasure of or co-terminus with the term of the present Hon'ble Speaker, Lok Sabha.

3. As per Department of Personnel & Training Order No. 14017/32/2007-AIS II dated 6th September, 2007, the appointment of Shri Indevan Pandey as Secretary to Hon'ble Speaker, Lok Sabha is under Rule 6(2)(ii) of IAS (Cadre) Rules, 1954 as amended.

ABHIJIT KUMAR, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 30th November 2007

No. A-11013/2/2007-Adm.-III—The President is pleased to appoint Shri P. Sankar, Stenographer Grade 'A&B' (Marged) (Designated as P. S.) of CSSS of Planning Commission as Private Secretary in the personal staff of Member (Shri B. K. Chaturvedi) in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on co-terminus deputation basis w.e.f. 1st December, 2007 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

D. K. MUSTAFI, Deputy Secy.

New Delhi, the 29th November 2007

No. A-19015/2/95-Adm.-V—In pursuance of Department of Personnel & Training Ministry of Personnel, P. G. and

Pensions Order No. 5/17/2007-CS.I (Desk) dated 27th September, 2007 the services of Shri N. K. Arora, Section Officer, Planning Commission are placed at the disposal of the M/o Home Affairs with effect from the forenoon of 29th November, 2007 for appointment as Under Secretary (Grade-I of CSS) purely on ad hoc basis.

N. K. SHARMA, Under Secy.

New Delhi, the 26th November 2007

No. F.6(1544)/92-Adm.-I—Consequent on his promotion to SAG of IES and posting as Economic Adviser in the Ministry of Corporate Affairs, Shri N. D. George, Director, Planning Commission is relieved from Planning Commission with effect from 26th November, 2007 (A.N.) to join that Ministry.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 5th December 2007

No. A-12025/7/2006-Adm.-I—In acceptance of the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint Shri Amitabha Ray, a regular Senior Research Officer (Project Appraisal) as Deputy Adviser (Data Bank) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 15th November, 2007 and until further orders.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A-12025/8/2007-Adm.-I—The President is pleased to appoint Dr. A. A. Sonkusare, regular Senior Research Officer (Natural Science) as Deputy Adviser (Scientific Research) in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period of one year w.e.f. the forenoon of 29.11.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Dr. Sonkusare any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A-12025/8/2007-Adm.-I—The President is pleased to appoint Shri Rajnath Ram, regular Senior Research Officer (Petroleum) as Deputy Adviser (Project Appraisal) in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period of one year w.e.f. the forenoon of 29.11.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Shri Rajnath Ram any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

CORRIGENDUM

No. F.6(1319)/87-Adm.-I—Reference Planning Commission's Notification of even number dated 18th July, 2007 relieving Dr. Arvind Virmani from the post of Principal Adviser Planning Commission on his appointment as Chief Economic Adviser, Department of Economic Affairs (Ministry of Finance) on deputation basis. The effective date of relinquishment of charge by Dr. Arvind Virmani may be read as 16.07.2007 (FN) instead of 16.7.07 (AN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 6th December 2007

No. A-12025/3/2007-Adm.-I—In acceptance of the recommendation of UPSC, the President is pleased to appoint Shri Sudhir Kumar, a regular Senior Research Officer (Engineering) as Deputy Adviser (Engineering) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500 on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 30th November, 2007 and until further orders.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 7th December 2007

No. A-12025/8/2007-Adm.-I—The President is pleased to appoint Shri A. Manohar, regular Senior Research Officer (Project Appraisal), Planning Commission as Deputy Adviser (Project Appraisal) in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period of six months w.e.f. the forenoon of 05.12.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Shri Manohar any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A-12025/8/2007-Adm.-I—The President is pleased to appoint Shri H. P. Kannaujia, regular Senior Research

Officer (Geology) and adhoc Deputy Adviser (Minerals) in Planning Commission as Deputy Adviser (Energy Policy) in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period on one year w.e.f. the forenoon of 29.11.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Shri Kannaujia any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by him on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A-12025/8/2007-Adm.-I—The President is pleased to appoint Ms. Renu Sobti, regular Senior Research Officer (Science Education), Planning Commission as Deputy Adviser (Education) in Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on adhoc basis for a period of one year w.e.f. the forenoon of 05.12.2007 or till the post is filled up on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

2. It is made clear that this adhoc appointment will not bestow on Ms. Sobti any right to claim for regular appointment in the grade of Deputy Adviser and also that any service rendered by her on adhoc basis in the grade of Deputy Adviser would neither count for the purposes of seniority in the grade of Deputy Adviser nor towards eligibility for promotion to the next higher grade.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 10th December 2007

No. A-12025/1/2005-Adm.-I—In acceptance of the recommendations of UPSC, the President is pleased to appoint Shri R. B. Tyagi, a Geologist (Sr.) of Geological Survey of India against the post of Deputy Adviser (Minerals) in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on deputation basis for a period of four years w.e.f. the afternoon of 4th December, 2007 and until further orders.

S. KESAVA IYER, Under Secy.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi-110001, the 7th December 2007

No. 181/7/1/2007/3071—The President is pleased to appoint Smt. Kala Sankaran as Principal Private Secretary in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Election Commission of India with effect from 1st December, 2007 and until further orders.

RITVIK PANDEY, Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(DEPARTMENT OF JUSTICE)

New Delhi-110011, the 19th November 2007

No. K. 13018/1/2005-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Kartikeya Madhusudan Thaker, (ii) Shri Zahiruddin Khairuddin Saiyed, (iii) Shri Rajesh Harivadan Shukla, and (iv) Shri Janakray Chandubhai Upadhyaya to be Additional Judges of the Gujarat High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 20th November 2007

No. K. 13023/3/2007-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Jitendra Kumar Maheshwari, (ii) Shri Brij Mohan Gupta, and (iii) Shri Anil Prakesh Shrivastava to be Additional Judges of the Madhya Pradesh High Court, for a period of one year with effect from 25-11-2007.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13020/1/2007-US.-II—In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 100-A of the Constitution of Jammu & Kashmir, the President is pleased to appoint Shri Mohammad Yaqoob Mir, to be and Additional Judge of the Jammu & Kashmir High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 3rd December 2007

No. K. 13027/4/2007-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Rakesh Kumar Garg, (ii) Shri Rakesh Kumar Jain, (iii) Shri Kanwaljit Singh Ahluwalia, (iv) Shri Jaswant Singh, and (v) Shrimati Daya Chaudhary to be Additional Judges of the Punjab and Haryana High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K. 13024/4/2007-US.-I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of

India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice A. C. Arumuga Perumal Adityan, (ii) Shri Justice P. Murgesen, (iii) Shri Justice Sabapathi Tamilvanan and (iv) Shri Justice M. Jeyapaul, Additional Judges of the Madras High Court as Permanent Judges of the Madras High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 4th December 2007

No. K. 13022/1/2007-US.-I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Padoor Natuvileedom Ravindran, to be and Additional Judge of the Kerala High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 12th November 2007

No. K. 13026/2/2007-US.-II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Shri Justice Ajay Kumar Tripathi and (ii) Shri Justice Dharmidhar Jha, Additional Judges of the Patna High Court to be Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAJIV AGARWAL, Additional Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 4th December 2007

No. A-32013/05/2007-Ad.-I—The President is pleased to appoint Shri P. P. Singh, permanent Section Officer of CSS Cadre of Ministry of Home Affairs and Officiating as Under Secretary on adhoc basis in the Ministry of Home Affairs, to the Grade-I of Central Secretariat Service (Under Secretary) on regular basis. His seniority No. in Grade-I of CSS is 59 as per DoP&T's OM No.5/2/2006-CS.-I (Desk), dated 20th August, 2007 in the Select List of 2002 and deemed date of appointment to Grade-I of CSS is 01.07.2002.

O. P. SHARMA, Under Secy.

The 10th December 2007

No. 20/G/2935-Ad.-I—The President is pleased to appoint Shri Sada Kant, IAS (UP:83), as Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs with effect from the forenoon of 26th November, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

O. P. SHARMA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 4th December 2007

No. 14016/28/2005-UTS-II—Shri Jiwan Singh Gill, Entry Grade officer of NCT of Delhi, Andaman & Nicobar Islands, Lakshadweep, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli Police Service (DANIPS) expired on 21st August, 2007.

J. K. SINGH, Desk Officer

New Delhi, the 5th December 2007

No. 14031/1/2007-UTS.—On attaining the age of superannuation, Shri R. Narayanaswami, Indian Administrative Service Officer of 1971 Batch of Joint Cadre of Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories, retired from service in the afternoon of 30th November, 2007.

V. K. GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, P. G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 4th December 2007

No. 14012/05/2002-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Dev Raj Dev, a member of the Indian Administrative Service, borne on the State Cadre of Tamil Nadu of 1999 batch, in the Indian administrative Service with effect from 20.9.2001.

G. C. PANDEY, Under Secy.

The 5th December 2007

No. 14013/06/2007-AIS-III.—In exercise of the powers conferred by rule 3A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri N. S. Bhatnagar, a member of the Indian Administrative Service, borne on the State Cadre of Madhya Pradesh of 2001 batch, in the Indian Administrative Service with effect from 22.11.2007.

2. The confirmation of Shri N. S. Bhatnagar is subject to the final outcome of O.A. No. 640/2006 filed by Shri Gopal Singh Netam and O.A. No. 685/2006 filed by Shri Ram Gopal Pandey before the Hon'ble CAT, Jabalpur Bench.

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)]

New Delhi, the 30th November 2007

No. D.III/460/CF-30/07.—The President is pleased to recognise the appointment of Mr. Vikram Kapur as Honorary Consul of the Republic of Vanuatu in New Delhi with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Vikram Kapur comprises of the whole of India with the consular seat in New Delhi.

D. K. SHARMA, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 5th December 2007

No. A.22015/3/2007-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Saikat Sarkar (IES : 95), Deputy Director in the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics, Kolkata, to the Post of Joint Director in the scale of Pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Ministry of Finance, Department of Expenditure against the post encadred with the Indian Economic Service, with effect from the forenoon of the 26th November, 2007 and until further orders.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 20th November 2007

No. 1(25)/2004-Expl.—The President is pleased to appoint Shri P. B. Yedla, Controller of Explosives as Deputy Chief Controller of Explosives, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur with effect from 09th April, 1996.

JAI SINGH, Under Secy.

The 3rd December 2007

No. 1(37)/2004-Expl.—The President is pleased to appoint the following officers as Deputy Controller of Explosives, in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in the Petroleum and Explosives Safety Organisation, Nagpur with effect from the dates shown against each :—

S. No.	Name of the Officer	Date of joining
1	2	3
1.	Shri Ashok Kumar Dalela	14.05.2007 (FN)
2.	Shri Janardan Kumar	14.05.2007 (FN)
3.	Dr. Anuj Kumar	31.05.2007 (FN)
4.	Dr. Karunamay Pandey	15.05.2007 (FN)
5.	Dr. Vivek Kumar	14.06.2007 (FN)
6.	Shri Gajendra Kumar Pandey	14.06.2007 (FN)
7.	Dr. Sanjay Kumar Singh	29.06.2007 (FN)

1	2	3
8.	Shri Hirdayesh Kumar Sharma	14.05.2007 (FN)
9.	Shri Shivchandra Dayakant Mishra	28.05.2007 (FN)
10.	Shri Srinivasa Rao Keta	10.05.2007 (FN)
11.	Dr. Dasharath Laxman Karble	28.05.2007 (FN)

JAI SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION
(DEPARTMENT OF FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION)

New Delhi, the 3rd December 2007

No. A-32013/2/2006-E.I.—The President is pleased to appoint the following Deputy Secretaries of the Central Secretariat Service (CSS) on regular basis in the Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, (Department of Food & Public Distribution) w.e.f. dates mentioned against each:

Sl. No.	Name of Officer	Date of Appointment
Select List 2001		
1.	Shri Sat Pal	01.07.2001
Select List 2002		
2.	Shri Raj Kumar Sagar	01.07.2002
3.	Shri Baboo Ram	01.07.2002

KULDEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 26th November 2007

No. A-32011/01/2001-Admn.I(A).—In continuation of this Department's Notification of even number dated 11th April, 2007, the Secretary, Department of Science and Technology (DST) hereby extends the terms of appointment of Shri Dharendra Tiwari, Junior Technical Assistant as Junior Analyst (Technical) on ad-hoc basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Department of Science and Technology for a period of six months w.e.f. 05.10.2007 to 04.04.2008 or until further orders, whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or for regular appointment or to claim seniority in the grade of Junior Analyst.

S. P. KATNAURIA, Under Secy.
For and on behalf of Secretary, DST

(DEPARTMENT OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH)

New Delhi-110016, the 4th December 2007

No. A-32019/04/2007-Estt.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List of Selection Grade of CSS for the year 2001 by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 4/1/2007-C.S.I(D) dated the 1st November, 2007 the President is pleased to appoint Sh. Nanak Chand of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the Department of Scientific & Industrial Research with effect from 1st July, 2001.

S. K. KALRA, Under Secy.

No. A-32019/04/2007-Estt.—Consequent upon inclusion of their names in the Select List of Selection Grade of CSS for the year 2002 by the Department of Personnel & Training vide their O.M. No. 4/1/2007-C.S.I(D) dated the 7th November, 2007 the President is pleased to appoint Sh. Mahendra Sharma and Sh. Ram Kumar of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on regular basis in the Department of Scientific & Industrial Research with effect from 1st July, 2002.

S. K. KALRA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT & FORESTS

New Delhi-110003, the 20th November 2007

CORRIDENDUM

No. A-12012/14/2005-P.II(.)—In partial modification of the Notification of even No. dated 7th November, 2007, the scale of pay may be read as 14,300-400-18,300/- in place of Rs. 12,000-375-16,500/-.

PREMA MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 3rd August 2007

No. A. 12025/143/2006-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ram Swaroop Matoria to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11.07.2007 until further orders. Dr. Ram Swaroop Matoria is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Ram Swaroop Matoria shall be on probation for two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A. 12025/17/2006-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Sandhya Jain to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the afternoon of 30.05.2007 until further orders.

Dr. Sandhya Jain is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi. Dr. Sandhya Jain shall be on probation for a period of two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 7th December 2007

No. A. 12025/43/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Akhilesh Kumar to the Medical Officer Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of 27.06.2005 until further orders. Dr. Akhilesh Kumar is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Kanpur. He would be on probation for a period of two years.

(Smt.) MAYA PRAKASH, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 5th December 2007

No. A-38013/3/2007-Admn.I.—On attaining the age of superannuation Shri P. K. Banati, Section Officer in the Directorate General of Health Services has retired from Government service with effect from 31.10.2007 (AN).

ARUN CHOWDHURY, Dy. Dir. Admn. (AC)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 30th November 2007

No. 38012/14/2007-Estt.I.—Shri S. R. Goyal, Deputy Secretary, in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

No. 38012/13/2007-Estt.I.—Shri K. S. Sachdeva, Principal Private Secretary in the Department of Agriculture and Cooperation will retire from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2007 on attaining the age of superannuation.

P. VIJAY KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 6th December 2007

No. 48026/5/2007-MI.—The President is pleased to appoint Shri A. K. Singh to the post of Senior Marketing Officer (Group III) in the pay scale of Rs. 8,000-13,500/- in the Directorate of Marketing & Inspection, Department of Agriculture and Cooperation in a substantive capacity with effect from 02-08-2000 (FN).

RADHEY SHYAM, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 16th November 2007

No. 4-35/2006-Admn.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2002, the President is pleased to appoint Shri O. P. Srohe, regular Grade-I Officer of the Central Secretariat Service in the Selection Grade of Deputy Secretary of Central Secretariat Service on regular basis, with effect from 01.07.2002, in the Ministry of Women and Child Development.

This issues in pursuance of Department of Personnel and Training's OM No. 4/1/2007-CS.I (D) dated 7th November, 2007.

(Smt.) SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

The 19th November 2007

No. F.4-25/2007-Admn.—In pursuance of DoPT's O. M. No. 4/4/2007-CS-I, dated 31.10.2007, the President is pleased to appoint Ms. Anju Bhalla, regular Grade-I (Under Secretary of CSS) of Select List, 1997 to Selection Grade (Deputy Secretary of CSS) in the Ministry of Women and Child Development purely on ad hoc basis with effect from the forenoon of 07.11.2007.

(Smt.) SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 28th November 2007

No. 11019/1(ii)/2005-Estt.(TA).—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/6/SAG (Ad-hoc)/2006-ISS (Pt) dated 05.10.2007, the President is pleased to appoint Shri H. K. Sharma as Deputy Director General in the Ministry of Tribal Affairs in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the forenoon of 29.10.2007.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 11019/1(i)/2005-Estt.(TA).—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation Office Order No. 12016/6/SAG (Ad-hoc)/2006-ISS (pt) dated 05.10.2007, the President is pleased to relieve Shri A. K. Mathur, Deputy Director General in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the afternoon of 26.10.2007 to take up his new assignment in National Sample Survey Organisation, Field Operations Division, Ministry of Statistics & Programme Implementation, Chandigarh.

2. Shri A. K. Mathur is also hereby granted 33 days Earned Leave from 29.10.2007 to 30.11.2007 (with the permission to prefix 27th and 28th October, 2007 and suffix 1st and 2nd December, 2007 being Saturday and Sunday. The salary for the above said leave period to Shri Mathur will be paid by this Ministry. On expiry of the said leave period and after availing admissible joining time Shri Mathur will join his new

assignment in National Sample Survey Organization, FOD, MOSPI, Chandigarh.

A. K. SAHA, Under Secy.

No. 11013/2/2001-Estt.(Pt.) .—The President is pleased to appoint Shri Anup Kumar Srivastava, IFS (AM :91) as Director in the Ministry of Tribal Affairs with effect from the forenoon of 14.11.2007 and upto 06.03.2012 or until further orders, whichever is earlier.

A. K. SAHA, Under Secy.

The 30th November 2007

No. 19011/12/2005-Estt.—On attaining the age of superannuation Shri Lachhman Dass, Section Officer in the

Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service with effect from the afternoon of 30th November 2007.

A. K. SAHA, Under Secy.

New Delhi-110115, the 3rd December 2007

No. 11036/09/2006-PC&V(ii).—In supersession of this Ministry's Notification No. 11036/9/2006-PC-&V dated 13.11.2007 and in terms of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Ministry of Tribal Affairs are hereby designated as Appellate Authority, for the Ministry of Tribal Affairs, in respect of the specific subject matters being handled by the respective Divisions mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation and Address	Telephone Number	Division/Section
	Shri/Smt.			
1.	Dr. Bachittar Singh	Joint Secretary Room No. 741, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi.	23073489	SG/Admn./General/PC&V/ R&M
2.	Ruchira Pant	Joint Secretary, Room No. 722, 'A' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi.	23383622	NGO/Education/C&LM
3.	H. K. Sharma	Deputy Director General (Statistics), Room No. 241, August Kranti Bhavan, R.K. Puram, New Delhi.	26182094	Statistics/CP&R
4.	B. C. Munda	Advisor (Economic), Room No. 242, August Kranti Bhavan, R.K. Puram, New Delhi.	26182429	MER
5.	S. K. Roy	Joint Secretary & Financial Adviser Room No. 118, 'C' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi.	23382696	IFD

PRADEEP KUMAR
Under Secy.

No. 11036/09/2005-PC-&V.—In partial modification of this Ministry's Notification No. 11036/09/2005-PC&V(i) dated 13.11.2007, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri A.K. Srivastava, Director is hereby designated as Central Public Information Officer, in place of Ms. Juthika Patankar, Director, in respect of State Grants Division of this Ministry and the specific subject matters indicated against S.No. 2 of the above said notification.

2. Shri A.K. Srivastava's official Address & Telephone No. is—

Room No. 212, 'D' Wing, Shastri Bhawan
New Delhi-110115
Tel. No. 23387444

3. The name of Ms. Juthika Patankar, Director, indicated against S.No. 2 of the above said notification, may be treated as deleted.

PRADEEP KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 30th November 2007

No. E(O)III-2007/RN/38.—Consequent upon his permanent absorption in KRCL, Shri A.A. Bhatt, SAG/TRSSE, has resigned from Railway Service with effect from 13.11.2007.

MATHEW JOHN, Secy, Railway Board

**MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT &
HIGHWAYS**

(DEPARTMENT OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS)

New Delhi, the 4th December 2007

No. A-38013/2/2007-E.I.—Shri S.K. Khurana, an officer of Central Secretariat Service and working as Section Officer in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways has retired on attaining the age of superannuation w.e.f. 30.11.2007 (AN).

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

The 11th December 2007

No. A-32014/1/2007-E.I.—The President is pleased to appoint the following regular Assistants (CSS) as Section Officers (CSS) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the Ministry of Shipping, Road Transport & Highways, Department of Road Transport & Highways on ad-hoc basis w.e.f. 31.10.2007 (F.N.) upto 31.12.2007:—

1. Shri Jagbir Singh Rana
2. Smt. Prabha Sharma
3. Shri Prakash Chander
4. Shri P.R. Nigah

2. The adhoc appointment is purely temporary and does not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of Section Officers for regular appointment or to claim seniority in the grade of Section Officer grade of CSS. The adhoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

POORNIMA RAJENDRAN, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 6th December 2007

No. 39/2007 (F.No. A-32013/2/2007-Adm.I).—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group A), the President is pleased to appoint the following officers of the Junior Time Scale of the CPE (Group A) Service (Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer), to the Senior Time Scale of the same Service [Deputy Director (Engineering)/Executive Engineer], in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in the Central

Electricity Authority, with effect from the dates mentioned against their names, until further orders:—

S. No.	Name of the Officer	Date of Appointment
	S/Shri	
1.	A.K. Saha	19.09.2007 (FN)
2.	Deepak Kumar	21.09.2007 (FN)
3.	Dalip Chand	19.09.2007 (FN)
4.	P.K. Mittal	19.09.2007 (FN)
5.	T. Venkateswarlu	25.09.2007 (FN)
6.	Rajeev Kumar	19.09.2007 (FN)
7.	Saumitra Mazumdar	19.09.2007 (FN)
8.	Navdeep Dutta	19.09.2007 (FN)
9.	Y.K. Swarnkar	19.09.2007 (FN)
10.	Vijay Dhawan	19.09.2007 (FN)
11.	Didar Singh	19.09.2007 (FN)
12.	Ravi Prakash Pradhan	19.09.2007 (FN)
13.	H.C. Aggarwal	19.09.2007 (FN)
14.	Smt. Sharda Prasad	19.09.2007 (FN)
15.	Rajesh Kumar	19.09.2007 (FN)
16.	Vikram Singh	28.09.2007 (FN)
17.	Jagdish Rathod Khima	28.09.2007 (FN)
18.	Smt. Anita Gehlot	19.09.2007 (FN)

R.C. ARORA, Under Secy.

The 7th December 2007

No. 40/2007 (F.No. A-38012/1/2007-Adm.I).—The following officers of the Central Power Engineering (Group A) Service, in Central Electricity Authority retired from service under the Government of India in the afternoon of 31st October, 2007 on attaining the age of superannuation:—

Sl. No.	Name	Designation
1.	Shri S.C. Marwah	Deputy Director
2.	Shri Vijay Pal	Deputy Director

R.C. ARORA, Under Secy.

No. 41/2007 (F.No. A-38012/1/2007-Adm.I).—The President is pleased to appoint Shri Rahul Raj in the Junior Time Scale (Assistant Director Grade-I/Assistant Executive Engineer) of the Central Power Engineering (Group A) Service in the Central Electricity Authority with effect from 26th November 2007 until further orders.

2. Shri Rahul Raj will be on probation for a period of two years.

R.C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi-110001, the 6th December 2007

No. 446/2007 (F. No. 6/2/2007-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri U.K. Varma, IAS (MP: 76) as Additional Secretary in the Ministry of Information & Broadcasting in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 06.12.2007, until further orders.

RAM PHAL, Under Secy.

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 30th November 2007

No. 21/5/2000-Admn.II (Pt.).—The Director General, Directorate of Advertising & Visual Publicity is pleased to appoint the following Assistant Accounts Officers as

Accounts Officer (Group 'B' Gazetted) in this Directorate on regular basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- with effect from the dates mentioned against their names:—

S. No.	Name of the Official (s)	Date of regular appointment as Accounts Officer
	S/Shri	
1.	Ashok Sachdeva	21.11.2007 (FN)
2.	S.K. Gupta	21.11.2007 (FN)
P.M. GEORGE, Dy. Director (Admn.)		

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 26th November 2007

No. A-22016/1/2007-Admn.I.—The President is pleased to appoint, Ms. Sharda Meshram as Director in the Ministry of Urban Development with effect from 16.11.2007 (FN) until further orders.

U. VISWANADHAM, Under Secy.